

नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड
(मिनिरातना कंपनी)
(कोल इण्डिया लिमिटेड की अनुषंगी कंपनी)



Northern Coalfields Limited

(AMiniratna Company)

(A subsidiary of Coal India Limited)

जनसंपर्क विभाग /Public Relations Department



CIN- U10102MP1985GOI003160

An ISO: 9001, ISO: 14001 & OHSAS: 18001 Certified Company

पोस्ट- सिंगरौली कोलियरी, जिला- सिंगरौली, म.प्र., पिन 486889/ Post- Singrauli Colliery, Distt- Singrauli, M.P. PIN-486889

Phone: 07805- 266808, (FAX) 266640 email: pro.ncl@coalindia.in website : www.nclcil.in

पत्रक० एनसीएल/ज०स०वि०/प्रेसवि०/2017-18/337

दिनांक - 17/10/2017

प्रेस विज्ञप्ति

चंदुआर बना ग्रामीण सीएसआर वॉलिबॉल प्रतियोगिता का विजेता

नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (एनसीएल) के कृष्णशिला क्षेत्र ने अपनी निगमित सामाजिक दायित्व (सीएसआर) योजना के तहत क्षेत्र के आस-पास के ग्रामीण युवाओं को अपनी वॉलिबॉल प्रतिभा का प्रदर्शन करने का मंच प्रदान करने के उद्देश्य से शनिवार को सीएसआर ग्रामीण वॉलिबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया। डॉ. अंबेडकर विद्यालय, जवाहरनगर में आयोजित प्रतियोगिता का खिताब चंदुआर गांव ने फाइनल में मेजबान जवाहरनगर गांव की टीम को हराकर जीता। प्रतियोगिता के फाइनल मैच और समापन समारोह के दौरान कृष्णशिला क्षेत्र के महाप्रबंधक श्री आर. बी. प्रसाद बतौर मुख्य अतिथि उपस्थित थे।

प्रतियोगिता में मिसरा, घरसड़ी, चंदुआर, कोहरौल, कोहरौलीया और मेजबान जवाहरनगर सहित कुल 6 गांवों की टीमों ने भाग लिया। प्रतियोगिता नॉकआउट आधार पर खेली गई। पहला मैच कोहरौलीया और मिसरा की टीमों के बीच खेला गया, जिसमें कोहरौलीया की टीम ने बेहद आसानी से 25-3, 25-6 से जीत दर्ज कर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। दूसरे मैच में कोहरौल ने घरसड़ी को 25-4, 25-10 से हराकर सेमीफाइनल में अपनी जगह बनाई।

प्रतियोगिता का पहला सेमीफाइनल मेजबान जवाहरनगर और कोहरौलीया के बीच बीच खेला गया, जिसमें दोनों टीमों के बीच कांटे का मुकाबला हुआ। कोहरौलीया ने 64 अंकों तक खिंचे पहले सेट में 33-31 से जीत दर्ज की, लेकिन इसके बाद जवाहरनगर ने वापसी करते हुए अगले दोनों सेट 25-21 और 25-18 से जीतकर फाइनल में प्रवेश किया। दूसरे सेमीफाइनल में चंदुआर ने कोहरौल को तीन सेट तक चले मुकाबले में 25-9,20-15 और 25-5 से हराकर खिताबी मुकाबले में अपनी जगह बनाई।

फाइनल में मेजबान जवाहरनगर ने चंदुआर को शुरू से ही कोई मौका न देते हुए सीधे सेटों में 25-21, 25-18 से जीत दर्ज कर प्रतियोगिता का खिताब अपने अपने नाम किया।

इससे पहले कृष्णशिला क्षेत्र ने शुक्रवार को डॉ. अंबेडकर विद्यालय, जवाहरनगर में ही ग्रामीण बालिकाओं के लिए सीएसआर ग्रामीण बालिका कबड्डी प्रतियोगिता प्रतियोगिता का आयोजन किया था, जिसमें आस-पास के 6 गांवों की बालिका टीमों ने भाग लिया था। मेजबान जवाहरनगर ने उस प्रतियोगिता का खिताब भी भी अपने नाम किया था। वलिबॉल प्रतियोगिता के समापन समारोह में मुख्य अतिथि द्वारा वॉलिबॉल और कबड्डी दोनों प्रतियोगिताओं की विजेता एवं उपविजेता उपविजेता टीमों को पुरस्कृत किया गया।

जनसंपर्क अधिकारी